

Magnesium- शरीर को प्राकृतिक रूप से मज़बूत बनाने वाले सुपरफूड्स

Magnesium -हमारी रोज़मरा की डाइट में मैग्नीशियम (Magnesium) एक ऐसा मिनरल है जिसकी अक्सर कमी रह जाती है। यह शरीर में 300 से अधिक बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए ज़रूरी है—जैसे ऊर्जा उत्पादन, मांसपेशियों की मज़बूती, नसों का कार्य, ब्लड शुगर नियंत्रण और हड्डियों का विकास।

अगर डाइट में मैग्नीशियम कम होता है, तो शरीर जल्दी थकने लगता है, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है और नींद भी प्रभावित हो सकती है।

अच्छी बात यह है कि प्रकृति में कई ऐसी सब्जियाँ हैं जो मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत हैं। इन्हें रोज़ के भोजन में शामिल करने से शरीर को प्राकृतिक रूप से मैग्नीशियम मिलता है और सप्लीमेंट की ज़रूरत कम पड़ती है।

नीचे जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जो मैग्नीशियम में सबसे अधिक होती हैं।

1. पालक (Spinach) - मैग्नीशियम का राजा

पालक हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे पौष्टिक मानी जाती है।

100 ग्राम पालक में लगभग 79 mg मैग्नीशियम पाया जाता है।

फायदे:

थकान दूर करता है

आँखों व त्वचा के लिए लाभकारी

ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मददगार

कैसे खाएँ:

सलाद, सूप, पालक पनीर, पालक दाल या स्मूदी में।

2. मेथी के पत्ते (Fenugreek leaves)

मेथी के पत्तों में मैग्नीशियम (Magnesium) की अच्छी मात्रा होती है।

100 ग्राम में लगभग 54 mg मैग्नीशियम मिलता है।

फायदे:

पाचन ठीक करता है

डायबिटीज में फायदेमंद

इम्यूनिटी बढ़ाता है

कैसे खाएँ:

मेथी की सब्ज़ी, परांठा, या दाल में मिलाकर।

3. भिंडी (Okra)

भिंडी हल्की और पचने में आसान सब्जी है।

100 ग्राम भिंडी में लगभग 57 mg मैग्नीशियम होता है।

फायदे:

ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद

आँतों की सफाई

त्वचा और बालों के लिए बेहतरीन

4. ब्रोकली (Broccoli)

ब्रोकली एक सुपरफूड है जो फाइबर, विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होती है।

100 ग्राम में लगभग 21 mg मैग्नीशियम मिलता है।

फायदे:

एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर

वजन घटाने में सहायक

हड्डियों और दिल के लिए फायदेमंद

5. कद्दू (Pumpkin) और कद्दू के बीज

कद्दू एक हेल्दी सब्ज़ी है, लेकिन कद्दू के बीज इसमें और भी ज्यादा मैग्नीशियम देते हैं।

100 ग्राम कद्दू में लगभग 12 mg मैग्नीशियम

100 ग्राम कद्दू के बीज में 592 mg मैग्नीशियम

फायदे:

तनाव कम करता है

हड्डियों को मजबूत बनाता है

हार्मोन बैलेंस करता है

6. आलू (Potato) - सस्ता लेकिन पौष्टिक

धारणा है कि आलू सिर्फ कार्ब्स देते हैं, लेकिन यह मिनरल्स का भी अच्छा स्रोत है।

100 ग्राम आलू में लगभग 23 mg मैग्नीशियम मिलता है।

फायदे:

तुरंत ऊर्जा देता है

ब्लड प्रेशर नियंत्रित रखने में मददपाचन में सहायक

7. राजगिरा पत्ता (Amaranth leaves)

राजगिरा पत्ते ग्रामीण भारत में खब खाए जाते हैं और मैग्नीशियम का बेहतरीन स्रोत हैं।

100 ग्राम में लगभग 55 mg मैग्नीशियम।

फायदे:

खून की कमी (एनीमिया) में लाभ

हड्डियों को मजबूत करता है

पाचन सुधारता है

8. चुकंदर (Beetroot) और चुकंदर के पत्ते

चुकंदर के पत्तों में चुकंदर से ज्यादा मैग्नीशियम होता है।

100 ग्राम चुकंदर में 23 mg

100 ग्राम चुकंदर पत्तों में 70 mg मैग्नीशियम

फायदे:

खून बढ़ाता है

शरीर में सूजन कम करता है

त्वचा को ग्लो देता है

9. टमाटर (Tomato)

टमाटर भले ही खट्टे हों, पर मिनरल्स में समृद्ध हैं।
100 ग्राम टमाटर में लगभग 11 mg मैग्नीशियम।

फायदे:

एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर

दिल को स्वस्थ रखता है

वजन नियंत्रण में मददगार

मैग्नीशियम (Magnesium) के फायदे

मांसपेशियों को मजबूत बनाता है - सही तरह से काम करने में मदद करता है।
एनर्जी बढ़ाता है - खाने को ऊर्जा में बदलने में मदद करता है।
हड्डियों को मजबूत करता है - कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों की सेहत सुधारता है।

नर्व सिस्टम को सपोर्ट करता है - दिमाग और नसों के सही काम में मदद करता है।
स्ट्रेस और एंग्जायटी कम करता है - शरीर को शांत रखता है।
दिल की सेहत बेहतर करता है - हार्टबीट और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखता है।
ब्लड शुगर कंट्रोल करता है - इंसुलिन को सही काम करने में मदद करता है।
नींद अच्छी करता है - शरीर को रिलैक्स करके स्लीप क्वालिटी बढ़ाता है।

कैसे बढ़ाएँ मैग्नीशियम (Magnesium) का सेवन?

रोज़ाना 1 कटोरी हरी सब्ज़ी खाने का लक्ष्य रखें

स्मूदी या सूप में पालक/मेथी शामिल करें

कट्टू के बीज स्नैक की तरह खाएँ

सलाद में ब्रोकली या चुकंदर पत्ते मिलाएँ

भिंडी और मेथी को हफ्ते में 2-3 बार खाएँ

निष्कर्ष

मैग्नीशियम से भरपूर सब्जियों शरीर को प्राकृतिक रूप से स्वस्थ रखने का सबसे आसान तरीका हैं। इन्हें अपनी रोज़ की डाइट में शामिल करके आप थकान, तनाव, ब्लड प्रेशर और कमजोरी जैसी समस्याओं को कम कर सकते हैं।
हरी पत्तेदार सब्जियाँ, भिंडी, ब्रोकली और कट्टू जैसी सब्जियाँ हर किसी की थाली में जरूर होनी चाहिए।